

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी 2018—माघ 24, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्र. एफ 2-2-2018-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी 45.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.1	भूमि आवंटन आवेदनों का निराकरण.	मुख्य महाप्रबंधक.	60 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक.	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/सचिव एवं सूचना प्रौद्योगिकी.
45.2	आई. टी. प्रमाण-पत्र के आवेदनों का निराकरण.	मुख्य महाप्रबंधक.	60 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक.	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/सचिव एवं सूचना प्रौद्योगिकी.
45.3	पूंजी निवेश अनुदान का निराकरण.	मुख्य महाप्रबंधक.	60 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक.	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/सचिव एवं सूचना प्रौद्योगिकी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.4	ब्याज अनुदान का निराकरण.	मुख्य महाप्रबंधक.	60 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक.	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/सचिव एवं सूचना प्रौद्योगिकी.
45.5	कुशलता अंतराल प्रशिक्षण व्यय अनुदान का निराकरण.	मुख्य महाप्रबंधक.	60 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक.	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/सचिव एवं सूचना प्रौद्योगिकी.
45.6	प्रदर्शिनियों/आयोजनों पर व्यय अनुदान का निराकरण.	मुख्य महाप्रबंधक.	45 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक.	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/सचिव एवं सूचना प्रौद्योगिकी.
45.7	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान का निराकरण.	मुख्य महाप्रबंधक.	45 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक.	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/सचिव एवं सूचना प्रौद्योगिकी.
45.8	ऐसे समस्त भुगतान जो अनुबंधित कार्यों/क्रय/सेवाओं से इतर हो.	मुख्य महाप्रबंधक.	45 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक.	15 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/सचिव एवं सूचना प्रौद्योगिकी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, प्रमुख सचिव.